

‘विश्व हिन्दी दिवस’ समारोह

प्रथम 'विश्व हिंदी दिवस' नागपुर शहर में 10 जनवरी, 1975 को संपन्न हुआ था। इस दिवस की स्मृति में नागपुर मंडल द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2015 (बुधवार) को 16.00 से 17.30 बजे तक 'गुंजन सभागृह' में मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में 'विश्व हिंदी दिवस' समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक एवं 'नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' (नराकास) के अध्यक्ष श्री एस.के.गुप्ता तथा नीरी के निदेशक डॉ.सतीश आर.वटे और महिला कल्याण संगठन (WSSC) की अध्यक्ष, उपाध्यक्षा तथा अन्य पदाधिकारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ज्ञान व मनोरंजन के इस विशेष कार्यक्रम में मंडल के सभी अधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।



इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्रदर्शित 'राजभाषा



स्लोगन' को 'गुंजन सभागृह' की गैलरी में अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया और इस प्रतियोगिता के विजेता कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक महोदय के करकमलों से पुरस्कृत किया गया। नागपुर मंडल द्वारा निर्मित राजभाषा की विकास गाथा 'राजभाषा भारतीय संस्कृति की धरोहर' नामक वृत्तचित्र (Documentary film) को

भी इस कार्यक्रम में दिखाया गया था।

उपस्थित अतिथि, अधिकारी तथा कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु वर्धा तथा नागपुर सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों द्वारा गीत-संगीत का कार्यक्रम 'सांस्कृतिक संध्या' प्रस्तुत किया गया। जिसमें श्रीमती आस्मा शेख, श्रीमती किरण नगराले, श्री सूचित धीमन, श्री अनिल भालेराव, श्री जमीर शेख, श्री सूरज ठाकूर, श्री प्रणव घोष इत्यादि कलाकारों ने वाद्य संगीत, सुमधुर गीत गायन प्रस्तुत करके सभी को मंत्रमुग्ध किया। 'सांस्कृतिक संध्या' का समन्वयन श्रीमती विजया घाटे तथा कार्यक्रम का संचालन श्री सुशील तिवारी ने किया।


